

3658

8

या

सामाजिक लेखांकन मैट्रिक्स की अवधारणा और घटकों और राष्ट्रीय
आय लेखांकन के लिए इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए।

(18)

(200)

[This question paper contains 8 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 3658

J

Unique Paper Code : 2413080027

Name of the Paper : Social Accounting (DSE)

Name of the Course : B.Com (Hons.)

Semester : VI

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. All questions carry equal marks
3. Answers may be written either in **English or in Hindi**, but the same medium should be used throughout the paper.

P.T.O.

3658

2

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
3. इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. Explain the historical development and evolution of social accounting. Why is there a need for a shift from traditional to social accounting?

(18)

OR

3658

7

लेखांकन के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। (18)

या

सामाजिक लेखांकन के उद्देश्य और दायरा क्या हैं? कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के लिए इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। (18)

4. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) क्या है? कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में सीएसआर रिपोर्टिंग के लिए कानूनी ढांचे पर चर्चा कीजिए। (18)

या

ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग क्या है? इसके आयाम और स्थिरता रिपोर्टिंग में इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। (18)

5. सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश (एसआरआई) क्या है? चर्चा कीजिए कि जीआरआई, एसएसबी और एसडीजी जैसे वैश्विक ढांचे सामाजिक लेखांकन प्रथाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। (18)

3658

6

क्यों है? (18)

या

सामाजिक लेखांकन के औचित्य और बदलते कारोबारी माहौल में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। (18)

2. सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) क्या है? व्यावसायिक गतिविधियों की सामाजिक लागत और लाभों का आकलन करने में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और तकनीकों का वर्णन कीजिए। (18)

या

सामाजिक आय विवरण के लिए सीडलर के मॉडल की व्याख्या कीजिए और यह सामाजिक लागत और लाभों को मापने में कैसे मदद करता है। (18)

3. हितधारक सिद्धांत, वैधता सिद्धांत और संस्थागत सिद्धांत सहित सामाजिक

3658

3

Discuss the rationale for social accounting and its significance in the changing business environment. (18)

2. What is Social Impact Assessment (SIA)? Describe the tools and techniques used in assessing the social costs and benefits of business activities. (18)

OR

Explain Seidler's Model for Social Income Statement and how it helps in measuring social costs and benefits. (18)

P.T.O.

3658

4

3. Describe the various theories of social accounting including Stakeholder Theory, Legitimacy Theory, and Institutional Theory. (18)

OR

What are the objectives and scope of social accounting? Discuss its relevance for corporate responsibility. (18)

4. What is Corporate Social Responsibility (CSR)? Discuss the legal framework for CSR reporting in India under the Companies Act, 2013. (18)

OR

What is Triple Bottom Line reporting? Explain its dimensions and its role in sustainability reporting. (18)

3658

5

5. What is Socially Responsible Investment (SRI)? Discuss how global frameworks such as GRI, SASB, and SDGs influence social accounting practices. (18)

OR

Explain the concept and components of Social Accounting Matrix and its relevance to national income accounting. (18)

1. सामाजिक लेखांकन के ऐतिहासिक विकास और विकास की व्याख्या कीजिए। पारंपरिक से सामाजिक लेखांकन में बदलाव की आवश्यकता

P.T.O.